

AU-1556

M.Com. Semester—IV Examination

(Optional Group—A : Finance)

(A) FINANCIAL INSTITUTIONS AND MARKETS FINANCE

Paper—402-A(1)

Time : Three Hours]

[Maximum Marks : 80

N.B. :— (1) Attempt **ALL** the questions.

(2) All questions carry equal marks.

1. (a) State the importance of Financial system in economic development of India. 16

OR

- (b) Explain Indian Financial system. 16

2. (a) Which are the various government securities available in India ? Explain. 16

OR

- (b) Discuss on any four money market instruments. 16

3. (a) State the functions of Reserve Bank of India in detail. 16

OR

- (b) What is the concept of development banks ? Explain its objectives. 16

4. (a) Give the concept of non-banking financial institutions. Explain in detail the investment policy of any one non-banking financial institutions. 16

OR

- (b) Explain the sources of finance for non-banking financial institutions. 16

5. (a) State the SEBI guidelines for regulation of Mutual Funds in India. 16

OR

- (b) Explain any latest four Mutual Funds Schemes in India. 16

AU-1556

M.Com. Semester—IV Examination

(Optional Group—A : Finance)

(A) FINANCIAL INSTITUTIONS AND MARKETS FINANCE

Paper—402-A(1)

Time : Three Hours]

[Maximum Marks : 80

(मराठी माध्यम)

नोट :- (1) सर्व प्रश्न सोडवा.

(2) सर्व प्रश्नांना समान गुण आहेत.

1. (अ) भारताच्या आर्थिक विकासात वित्तीय व्यवस्थेचे महत्त्व विशद करा. 16
किंवा
(ब) भारताची वित्तीय व्यवस्था स्पष्ट करा. 16
2. (अ) भारतामध्ये कोणकोणत्या सरकारी प्रतिभूती उपलब्ध आहेत. वर्णन करा. 16
किंवा
(ब) मुद्रा बाजारातील कोणत्याही चार साधनांची चर्चा करा. 16
3. (अ) भारतीय रिझर्व बँकेची कार्ये सविस्तर स्पष्ट करा. 16
किंवा
(ब) विकास अधिकोषाची संकल्पना काय आहे ? त्यांची उद्दिष्टे स्पष्ट करा. 16
4. (अ) गैर अधिकोषीय वित्तीय संस्थांची संकल्पना द्या. कोणत्याही एका गैर अधिकोषीय वित्तीय संस्थेचे गुंतवणूक धोरण विस्तृतपणे स्पष्ट करा. 16
किंवा
(ब) गैर अधिकोषीय वित्तीय संस्थांचे वित्तीय स्रोत कोणते आहे ? ते स्पष्ट करा. 16
5. (अ) भारतामध्ये म्युच्युअल फंडाच्या नियमनाकरिता दिलेली सेबी मार्गदर्शक तत्वे स्पष्ट करा. 16
किंवा
(ब) भारतातील कोणत्याही चार आधुनिक म्युच्युअल फंड योजना स्पष्ट करा. 16

AU-1556

M.Com. Semester—IV Examination**(Optional Group—A : Finance)****(A) FINANCIAL INSTITUTIONS AND MARKETS FINANCE****Paper—402-A(1)**

Time : Three Hours]

[Maximum Marks : 80

(हिन्दी माध्यम)

नोट :- (1) सभी प्रश्न अनिवार्य हैं।

(2) सभी प्रश्नों के अंक समान हैं।

1. (अ) भारतीय आर्थिक विकास में वित्तीय व्यवस्था का महत्व विस्तार से समझाइये। 16

अथवा

- (ब) भारतीय वित्तीय व्यवस्था स्पष्ट कीजिये। 16

2. (अ) भारत में कौन-कौन सी सरकारी प्रतिभूतियाँ उपलब्ध हैं ? बतलाइये। 16

अथवा

- (ब) मुद्रा विपणी के किन्ही चार साधनों की चर्चा कीजिये। 16

3. (अ) भारतीय रिजर्व बैंक के कार्य विस्तार से स्पष्ट कीजिये। 16

अथवा

- (ब) विकास अधिकोष की संकल्पना क्या है ? उनके उद्देश्य स्पष्ट कीजिए। 16

4. (अ) गैर-अधिकोषीय वित्तीय संस्था की संकल्पना बतलाइये। किसी एक गैर-अधिकोषीय वित्तीय संस्था की निवेश नीति विस्तार से स्पष्ट कीजिये। 16

अथवा

- (ब) गैर-अधिकोषीय वित्तीय संस्था के वित्त के स्रोत कौन से हैं ? स्पष्ट कीजिए। 16

5. (अ) भारत में म्युचुअल फंड के नियमन के लिए दिये हुये सेबी मार्गदर्शक तत्वों को स्पष्ट कीजिए। 16

अथवा

- (ब) भारतीय म्युचुअल फंड के किन्हीं चार आधुनिक योजनाओं को स्पष्ट कीजिये। 16

